



HAMIRPUR POLICE



::एंटीरोमियों चेकिंग/जागरूकता अभियान::

जनपद हमीरपुर के समस्त थानों की एंटीरोमियों टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बस अड्डा/सार्वजनिक स्थानों/प्रमुख चौराहों के आस-पास में एंटीरोमियों चेकिंग की गई चेकिंग के दौरान बिना वजह घूमने वाले लड़कों/शोहदों की चेकिंग की गयी साथ ही एंटीरोमियो टीमों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव/कस्बे एवं सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं/छात्राओं से उनकी सुरक्षा के सम्बंध वार्ता की गई व यूपी पुलिस द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा संबंधित एप्लिकेशन/112 नंबर/वूमेन पावर हेल्प लाइन 1090 यूपी कॉप/पुलिस सोशल मीडिया के बारे में बताकर जागरूक किया गया साथ ही महिलाओं को उच्चाधिकारियों के मोबाईल नंबर से अवगत कराया गया एवं सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने के लिए जागरूक किया गया।





HAMIRPUR POLICE



::बैंक चेकिंग एवं पैदल गश्त::

आज दिनांक 13/10/2020 को पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम मे आने वालो को COVID-19 संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने की अपील की गई व क्रमबद्ध लाइन लगवाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया साथ ही बैंक के अंदर-बाहर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की गई एवं सुरक्षा हेतु लगे हुए सीसीटीवी कैमरों/अग्निशमन उपकरणों को चेक किया गया व पैदल गश्त कर लोगों मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के सम्बन्ध में जागरूक किया गया साथ ही अंतर्जनपदीय बॉर्डर एवं संवेदनशील स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की गयी।





HAMIRPUR POLICE



::पैदल गस्त/संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों व मास्क न लगाने वालों,आवारा टाइप एवं स्टंट करके गाड़ी चलाने वाले लड़को के विरुद्ध चलाया गया चेकिंग अभियान::

दिनांक 12-10-2020 को सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत पुलिस बल के साथ बैरियर,पैट्रोल पम्प,अंतर्जनपदीय बॉर्डर, ग्राम एवं कस्बों में पैदल गस्त किया गया इस दौरान, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों एवं आवारा टाइप एवं स्टंट करके गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग की व जनमानस को सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया साथ ही चेकिंग के दौरान बिना मास्क लगाए घूम रहे व्यक्तियों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कुल 115 व्यक्ति बिना मास्क लगाए पाये गये। उपरोक्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 18,150/- रुपया शमन शुल्क वसूल किया गया एवं जनमानस को संक्रमण से बचाव हेतु मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक किया गया साथ ही यातायात नियमों के उलंघन में 125 वाहनों का ई-चालान किया गया।





HAMIRPUR POLICE



अपराध समीक्षा गोष्ठी

दिनांक 12/10/2020 को एसपी हमीरपुर द्वारा पुलिस लाइन हमीरपुर में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गयी, गोष्ठी में महोदय द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये। गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर एवं जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी मौजूद रहे।





HAMIRPUR POLICE



थाना जलालपुर)-एक अदद देशी रिवाल्वर/6 राउंड चालू हालत में
32 बोर व 1अदद जिंदा कारतूस 32 बोर नाजायज के साथ अभियुक्त
गिरफ्तार

थाना जलालपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान टावर तिराहा बहद ग्राम जलालपुर से एक व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुआ जिसको चेकिंग के लिए रोका गया उपरोक्त के द्वारा भागने का प्रयास किया गया। अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया व अभियुक्त की तलाशी ली गई। अभियुक्त से एक अदद देसी रिवाल्वर 6 राउंड चालू हालत में 32 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 -171/2020

धारा -3/25 A.ACT में नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा जाएगा।

नाम पता अभियुक्त -

सौरभ सिंह पुत्र स्व० भूप सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बड़ी-भेड़ी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर।

बरामदगी-

अभि0 के कब्जे से एक अदद देसी रिवाल्वर 6 राउंड चालू हालत में 32 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 32 बोर नाजायज बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उपनिरीक्षक श्री मोहम्मद सलीम सिद्दीकी
2. कांस्टेबल जयप्रकाश ।

